

## रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

# रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

### अर्थ

- सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपए के उपयोग में वृद्धि करना

### इसमें शामिल है

- आयात और नियांत के लिये रुपए का उपयोग
- चालू और पूँजी खातों हस्तांतरण के लिये रुपए का उपयोग

**भारतीय रुपया चालू खातों में पूरी तरह से लेकिन पूँजी खातों में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है।**

### आवश्यकता

- अमेरिका द्वारा अमेरिकी डॉलर का हथियारीकरण (प्रतिबंधों के लिये)
- डी-डॉलराइजेशन की लहर
- चीनी मुद्रा रैमन्ड्री का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण
- वैश्वक विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में भारत की न्यूनतम हिस्सेदारी (1.7%)

### RBI के प्रयास

- सीमा-पार व्यापार में भारतीय मुद्रा - विदेश व्यापार नीति 2023 में प्रमुख घटक
- 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार समझौते हेतु तंत्र प्रस्तुत किया गया
  - इन देशों के बैंकों को विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs) खोलने की अनुमति दी गई
- "भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता" पर परिव्रक्त (2022)
- भारतीय रुपए में बाहु वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाया गया

### महत्व

- अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भरता
- विदेशी मुद्रा धंडार रखने की कम आवश्यकता
- भारतीय व्यापार की बहतर सीमा निपटान शक्ति
- मुद्रा की अस्थिरता का कम जोखिम

### चुनौतियाँ

- रुपया का पूरी तरह से परिवर्तनीय न होना
- अन्य देशों को भारतीय रुपया (INR) रखने की कम आवश्यकता; वैश्विक नियांत में भारत की कम हिस्सेदारी
- बाह्य आघातों के प्रति रुपया और अधिक संवेदनशील हो सकता है
- रुपए की आपूर्ति पर भारत का कम नियंत्रण

### उठाए जा सकने योग्य कदम

- INR में अधिक उदारीकृत निपटान (भारत और विदेशों में)
- भारत को वैश्विक वित्तीय बाजार में अपनी पहुँच का विस्तार करना चाहिये
- व्यापार घाटे की कम काने के लिये नियांत-उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना